



सुजैन फेनल स्पोर्ट्सप्लेक्स के एक हिस्से पर निर्माण हो रहा है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (13 जुलाई, 2022) – सुजैन फेनल स्पोर्ट्सप्लेक्स (Susan Fennell Sportsplex) के एक हिस्से को, पुराने रेक्रिएशन सेंटर का पुनर्निर्माण करने के लिए निर्माण हेतु पब्लिक के लिए बंद किया जाएगा। सुजैन फेनल स्पोर्ट्सप्लेक्स में निर्माण, कम्युनिटी को बेहतर सेवा देने के लिए और रेक्रिएशन सेंटरों का पुनर्निर्माण करने के लिए, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के प्लान का हिस्सा है।

निर्माण, पूर्व क्राफ्ट रूम में और पहली मंज़िल के साथ लगती जगहों के हिस्से पर होगा।

नई जगह, सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी वाले साथ लगते क्षेत्र के साथ, एक आधुनिक डिज़ाइन भाग पेश करेगी, जो सहयोग तथा एकता में वृद्धि करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स (ई-स्पोर्ट्स), रिकॉर्डिंग म्यूजिक, वोकल्स, म्यूजिक कम्पोजीशन, डी.जे. (DJ) अवसरों सहित, बहुत-से प्रोग्रामिंग अवसरों के लिए पुल-डाउन स्क्रीन।

निर्माण पूरा होने पर, स्पोर्ट्सप्लेक्स कम्युनिटी यूथ हब (Sportsplex Community Youth Hub), 2023 में खुलेगा, जो 14 और 29 वर्ष के बीच के उम्र वाले यूथ के लिए, सृजन करने, एक-दूसरे से जुड़ने और हिमायत करने के लिए, वन-स्टॉप-शॉप प्रदान करेगा।

यूथ हब का पुनर्निर्माण होने के बाद, ऊर्जा बचत संबंधी नई पहलकदमियां शुरू हो जाएंगी। स्पोर्ट्सप्लेक्स में बिल्डिंग जीरो कार्बन सुधार को पूरा करने के लिए, और निर्माण प्रोजेक्टों के साथ सुधार किया जाएगा। ब्रैम्पटन के कई रेक्रिएशन सेंटर, सिटी की ग्रीनहाउस गैस (जी.एच.जी.) निकासियों के लगभग 50 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार हैं।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने जीरो कार्बन सुधार के लिए सुजैन फेनल स्पोर्ट्सप्लेक्स का चयन इसलिए किया था क्योंकि रेक्रिएशन सेंटर, हर वर्ष लगभग 1,100 टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जो 238 कारों से पैदा होने वाली जी.एच.जी. (GHG) निकासियों के बराबर है। फैसिलिटी में ज्यादातर सर्विसिंग उपकरणों की संभावित उपयोगिता भी खत्म होने वाली है।

इस प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानकारी, Brampton.ca पर पाएं।